

Date: 12th April, 2025

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001

Scrip Code: 517214

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block Bandra – Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai – 400 051 Scrip Code: DIGISPICE

Sub.: Newspaper advertisement regarding the Postal Ballot Notice

Dear Sir/Madam,

In continuation to our earlier letter dated 11th April, 2025 regarding submission of Postal Ballot Notice (the 'Notice'), we wish to inform you that the Company has completed sending of Notice on 11th April, 2025 to the Members whose name was appearing in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, 4th April, 2025 ('Cut- off date'), at their email addresses, registered with the Depository Participants/Depositories, (in case of electronic shareholding)/the Company's Registrar and Transfer Agents (in case of physical shareholding).

We are enclosing the copies of newspaper clips published in 'Financial Express' (English Edition) and 'Jansatta' (Hindi Edition) on Saturday, 12th April, 2025 on the above mentioned subject.

The said copies will also be made available on the website of the Company at www.digispice.com.

Kindly take the above information on record and acknowledge receipt of the same.

Thanking you.

Yours faithfully,

For DiGiSPICE Technologies Limited

Ruchi Mehta Company Secretary & Compliance Officer

Encl: - a/a

Email ID: complianceofficer@digispice.com; Website: www.digispice.com

FINANCIAL EXPRESS

JioHotstar's subscribers top 200 mn on IPL boost

UDAY SHANKAR, VICE-CHAIRMAN, JIOSTAR

This makes us one of the

the world. To get so many

from India in such a short

time was pretty satisfying

paying subscribers just

biggest streaming services in

SOHEE KIM & HASLINDA AMIN April 11

INDIA'S JIOHOTSTAR, **LARGEST** streaming platform, has increased its paying subscriber base to over 200 million, driven by multi-language live broadcasts of the hugely popular Indian Premier League (IPL) cricket matches, a senior executive said.

"That makes us one of the biggest streaming services anywhere in the world," said Uday Shankar, vice chairman of JioStar, the joint venture between Reliance Industries and Walt Disney, which runs the JioHotstar platform.

To get so many paying subscribers just from India in such a short time was "pretty satisfying," he said on Friday. The milestone makes Jio-

Hotstar the third-largest video streaming service globally by user count, trailing only Netflix and Amazon's Prime Video. All three are locked in a battle for supremacy in India's fast growing but fiercely competi-

While JioStar is aggressively wooing users with low fees and live sports streaming,

tive streaming market.

Netflix is ramping up original local content and Prime Video has tied up with Apple TV+ and Crunchyroll to attract viewers.

Shankar, who played a key role in stitching the Disney-Reliance media merger, said the broader ambition is toget every potential customer in the country onto his platform.—BLOOMBERG

FROM THE FRONT PAGE

Electronics firms up in arms over new e-waste policy

INDIA IS THE third-biggest ewaste generator behind China and US. But government data show only 43% of the country's e-waste last year was recycled and at least 80% of the sector comprises informal scrap dealers, whose methods can pose environmental and health risks.

Concerned about poor waste-processing practices, the government in September set a floor price that electronics makers must pay recyclers, with the aim of formalising the sector and encouraging investment in e-waste management. A Reuters review of non-

public court papers and letters to the government by an industry group representing Samsung and LG reveals the impasse over the new rates, which the industry says have roughly tripled manufacturers' recycling costs.

Johnson Controls-Hitachi, Japan's Daikin, India's Havells and Tata Group's Voltas each sued the government between November and March to quash the pricing rules. The measures are unconstitutional, exceed the government's powers under environmental law, and raise compliance costs manifold, the companies said in submissions

Concerned about poor waste-processing practices, the govt in Sept set a floor price that firms must pay recyclers

to court. The government has called for the cases to be dismissed.

Daikin said no Indian government had ever previously drafted policies with the "sole intention" of providing financial gain to some businesses, in this case recyclers, at others' expense. Voltas predicted a "cascading effect" on product prices.

Samsung declined to comment. The other companies and the environment ministry didn't respond to Reuters queries. In a March 18 submission,

the environment ministry urged the judges to dismiss the lawsuits, saying it was "reasonable"and within its powers to fix prices. The new rules mandate a minimum payment of ₹22 rupees per kg to recycle consumer electronics and ₹34/kg for smartphones.

The Consumer Electronics and Appliances Manufacturers Association, which represents LG and Samsung, among others, said in a letter to the government in November that e-waste compliance expenses had risen to 2% to 8% of production costs. The group asked environment officials to reconsider the -REUTERS pricing rules.



Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India (Board Line: 022-67173188) CIN: L28920MH1919PLC000567

(Corporate Contracts Department)

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest from eligible

bidders for participation in tender for the following packages: OLA for providing services towards electrical wiring works for PSP office at Bhivpuri for 2 years (Ref: CC25PP016)

Services for carrying out Bathymetry and Topography detail survey at Shirawta PSP (Ref: CC23PP019)

For details of requirement, please visit Tender section of our website (URL:

https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.aspx). Eligible vendors willing to participate may submit their expression of interest latest by 17" April 2025.

DIGISPICE

DiGiSPICE Technologies Limited

Registered Office: JA-122, 1st Floor, DLF Tower A, Jasola, New Delhi -110025 CIN: L72900DL1986PLC330369

Tel.: 011- 41251965; Email: complianceofficer@digispice.com; Website: www.digispice.com

Postal Ballot Notice

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular 9/2024 dated 19th September, 2024, issued by Ministry of Corporate Affairs, and any other applicable Laws, Rules, Regulations, Circulars and Guidelines, if any, below mentioned businesses are proposed for consideration by Members of DiGiSPICE Technologies Limited (the 'Company') for approval by passing the resolutions through Postal Ballot by voting through electronic means ('remote e-voting') only:

Item No.	Resolution	Description of the Resolution
1.	Special Resolution	Appointment of Ms. Veena Vikas Mankar (DIN 00004168) as a Non-Executive Independent Director of the Company
2.	Ordinary Resolution	Appointment of Mr. Ramesh Venkataraman (DIN 03545080) as a Non- Executive Non - Independent Director of the Company
3,	Ordinary Resolution	Approval for holding of office or place of profit by Mr. Ramesh Venkataraman (DIN 03545080), upon being appointed as Director of the Company

The Company has completed sending of Notice to the Members whose name was appearing in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, 4th April, 2025 ('Cut- off date'), at their email addresses, registered with MAS Services Limited, the Company's Registrar and Transfer Agents ('RTA') or Depository participant(s) ('DP') on 11th April, 2025. Members, whose names are appearing in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on the Cut-off date, shall be eligible to cast their votes through remote e-voting in accordance with the process specified in the Notice. The voting rights of the Members shall be in proportion of their shareholding to the total issued and paid up equity share capital of the Company as on the Cut-off date.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ('NSDL') for the purpose of providing remote e-voting facility to its Members. Remote e-voting shall commence from 12th April, 2025 at 9:00 A.M. (IST) and end on 11th May, 2025 at 5:00 P.M. (IST). The remote e-voting facility shall be disabled thereafter.

Any members, who have not received the Notice due to any reason, or whose E-mail IDs are not registered with the DPs or the RTA, may write email to the Company at complianceofficer@digispice. com or the RTA at investor@masserv.com. The Notice shall also be placed on the website of the Company (www.digispice.com); NSDL (www.evoting.nsdl.com); BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).

In case of any grievances/queries related to e-voting, members are requested to refer FAQs and e-voting user manual for shareholder available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com or may contact RTA at 011-26387281, 82, 83 or investor@masserv.com. The grievances can also be lodged at the Grievance Page of investor login section of RTA website www.masserv.com.

The result of the Postal Ballot will be announced within two working days from the last day of voting. The said result along with Scrutinizers Report will be uploaded on the website of the Company (www.digispice.com), NSDL (www.evoting.nsdl.com), BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com). The result will also be displayed at the Registered Office and the Corporate Office of the Company.

Date: 11-04-2025

Place: Noida

For DiGiSPICE Technologies Limited

Ruchi Mehta Company Secretary and Compliance Officer **ADDENDUM 1**

Date: 12-04-2025

Please refer to publication of Form - G - INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR M/S RAI HOMES (INDIA) PRIVATE LIMITED in this newspaper on 22nd March. 2025.

The last date for submission of Expression of Interest along with Ernest Money Deposit (EMD) is extended to **18th April**, **2025**, instead of 7th April, 2025. **Bishwanath Choudhary Resolution Professional** Place: Kolkata

Rai Homes (India) Private Limited (Under CIRP) IBBI Rea. No. IBBI/IPA-002/IP-N00597/2018-2019/12042 AFA Valid Upto 31-12-2025

Email: cirp.rhipl@gmail.com; choudhary bishwanath@rediffmail.com Flat No. 8F, Block 7, Prasad Exotica, 71/3, Canal Circular Road. Kolkata, West Bengal - 700054



CESC Limited, CIN:L31901WB1978PLC031411 Regd. Office: CESC House, Chowringhee Square, Kolkata - 700001

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

CESC Limited, a power utility in private sector and a flagship company under RP-Sanjiv Goenka Group, invites Expression of Interest for "Integrated work for establishment of Distribution Substation (33/11-6 kV voltage level) in all respect at CESC Limited, Kolkata".

Details available under Tender section of the official CESC website https://www.cesc.co.in

TORRENT POWER LIMITED Registered Office Address: 600, Samanvay, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad, Gujarat, 380015. NOTICE

Notice is hereby given that the certificate(s) for the undermentioned securities of the Company has/have been lost/misplaced & the holder(s) of the said securities/ applicant(s) has/have applied to the Company to issue duplicate share certificate(s) and name(s) deletion of deceased joint holders Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim

with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the

Company will proceed to name(s) deletion of deceased joint holders and issue duplicate certificate(s) without further intimation Share Holder's Name: Yakubkhan Imamkhan Pathan (Deceased) / Rabiyabibi

Yakubkhan Pathan (Applicant) / Imamkhan Umravkhan Pathan (Deceased)

Folio No. Certificate No. No. of Shares Value of Share Dist From Dist To 1413 Rs. 10/- Each | 40021907 | 40023319 Place: Ahmedabad

Date: April 12, 2025 Rabiyabibi Yakubkhan Pathan (Applicant) Yakubkhan Imamkhan Pathan (Deceased) / Imamkhan Umravkhan Pathan (Deceased)



1st floor, Terminal 1, Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Santacruz (E), Mumbai - 400 099.

EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

Mumbai International Airport Limited (MIAL), the concessionaire of CSMIA, Mumbai is inviting accredited agencies to submit their EOI for Construction of Airport Training Center & Guest Rooms at terminal-1 of CSMIA, Mumbai.

Interested agencies are requested to visit the website, www.csmia.adaniairports.com and obtain the EOI documents.

EOI documents shall be available for download from 12th April 2025 till 5:00 pm IST on 18th April 2025.

TRANSFER OF STRESSED LOAN EXPOSURE OF SAHARA HOSPITALITY LIMITED ("SHL") TO THE PERMITTED ENTITIES BY PARTICIPATING IN UNDER

BOB Capital Markets Ltd ("BOBCAPS" or "Process Advisor"), on behalf of Union Bank of India ("Lead Bank") and other lenders in the consortium (viz. Bank of Baroda, Central Bank of India, UCO Bank, IDBI Bank Ltd and Karnataka Bank Ltd) (collectively "Lenders") invites Expression of Interest ("EOI") from eligible ARCs / Banks / NBFCs / All India Financial Institutions r any other transferees (collectively "Permitted Entities" or "Bidders") eligible/permitted under the applicable laws and also the guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") including the Master Direction - Reserve Bank of India (Transfer of Loan Exposures) Directions. 2021, as amended from time to time ("RBI Master Directions") and each Lenders' internal Board approved policy. Lenders propose to assign/ transfer the Stressed Loan Exposure of SHL with total principal outstanding of the fund-based limits amounting to Rs. 426.80 Crore Rupees Four Hundred Twenty-Six Crore and Eighty Lakh only) to the Permitted Entities in "All Cash" basis by following the process as per the Bid Process Document ("BPD" through Swiss Challenge Method ("SCM"), strictly on "as is where is", "as is what is", "as is how is", "whatever there is" and "without recourse" basis. The Lenders shall not assume any operational, legal or any other type of risks relating to the stressed loan exposure sought to be transferred and shall not be providing any representations or warranties or assurances for SHL. All interested Permitted Entities are requested to submit their willingness to participate in the process as per the BPD, by way of an EOI and executing a Non-Disclosure Agreement. Last date for submission of EOI is April 19, 2025. Interested Bidders can access the website of BOBCAPS at https://www.bobcaps.in/tenders and Union Bank of India at https://www.unionbankofindia.co.in for Bid Process Document / Web Notice. Interested parties may contact undersigned:

The second secon		
Mr. Sagar Bhadra, AVP	+91 7666412395	projectspace@bobcaps.in
Mr. Hemant Gupta, Senior Manager	+91 9819436276	projectspace (geodespa.n)
Mr. Milind Dhanorkar, Senior Manager	+91 8850197794	samvmumbai@unionbankofindia.bani
NOTE: Please note that the process e the first stage involves a physical biddin second stage, which entails an e-Auctio Bidder and shall be subject to final ap the Lenders. Further, the Lenders / E exclusive right to suspend and/or cand or any part of the process laid down in and/or supplement the process or mo	ng process to ider on conducted under proval by the resp BOBCAPS on inside and/or annul a the Bid Process	atify the Anchor Bidder, followed by the er the SCM to determine the successful dective internal competent authority of structions of the Lenders reserve the addor modify and/or extend the entire Document at any stage and/or ameni

Email ID

Contact Person

Issued By Place: Mumbai BOBCAPS Date: April 12, 2025 **BOB Capital Markets Ltd**

BALAJI FIBER REINFORCE PRIVATE LIMITED (In Liquidation)

Liquidator's Address: 402, Shaival Plaza, Near Gujarat College, Ellisbridge, Ahmedabad - 380006 E-mail ID : cirpbalajifiber@gmail.com ; ashish@ravics.com

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR E-AUCTION Notice is hereby given to the public in general under Insolvency and Bankruptcy

Code, 2016 and regulations framed there under, that the property stated in table herein below, will be sold by E-Auction through the website https:// ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home (Known as eBKray portal)

Last Date for submission of Documents : On or before 28th April 2025, as per process document Monday before 6.00 P.M.

Inspection by eligible bidders: 29th April 2025 to 5th May 2025 between 11.00 A.M. to 5.00 P.M.

The person to be contacted for inspection is Mr. Sushil Tewary on his mobile no. +91 9898095610 Last Date for submission of EMD : On or before Thursday, 8th May 2025

Date and Time of Auction : Saturday, 10th May 2025

Reserve

Price (In Rs.)

(In Rs.)

Incremental

Value

between 1.00 P.M. to 3.00 P.M.

Particulars

t	Land situated at Survey No: 293, 293p, 289 of Village Poicha, Tal-Savli, Dist- Vadodara, admeasuring 21,725 sq. mtrs. along with Building(s) constructed thereon Plant & Machinery for manufacturing of FRP, GRP, Fiber and other related items located at above premise Stock in the nature of Finished / Semifinished Goods lying at the above premise	15,30,00,000	10% of the reserve price i.e. 1,53,00,000	5,00,000
2	Plant & Machinery for manufacturing of FRP, GRP, Fiber and other related items located at below premise Stock in the nature of Finished / Semifinished Goods lying at the below premise Location: S. No 293, Sakarda - Badrva Road, Nr. S D Finechem, Village - Poicha, Ta - Savli, Vadodara - 391780	6,30,00,000	10% of the reserve price i.e. 63,00,000	5,00,000

Auction shall be on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" basis. Any decision of the liquidator with respect to selection of bidder will be final and binding on the bidders. Bidders may please take note that, preference shall be given to those bidders who bids for the lot-1. Prospective bidders shall submit the requisite documents, including a declaration

of eligibility under Section 29A of the Insolvency and Bankruptcy Code through the electronic auction platform. Prospective bidders shall deposit the Earnest Money Deposit (EMD) through the Baanknet auction platform. If the bidder is found ineligible, EMD shall be forfeited. For detailed terms and conditions of E-auction sale refer TENDER DOCUMENTS

epaper.linancialexpress.com

IP Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00214/2017-18/10666

available at https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home or you may write to the Liquidator on his e-mail ID at cirpbalajifiber@gmail.com; ashish@ravics.com. For any query regarding E-Auction, contact Liquidator on his e-mail ID at cirpbalajifiber@gmail.com; ashish@ravics.com.

Ashish Shah, Liquidator of Place: Ahmedabad M/s. Balaji Fiber Reinforce Private Limited (In Liquidation)

Date: 11/04/2025

100 PARAG

Ideas for a new day

PARAG MILK FOODS LIMITED

CIN:L15204PN1992PLC070209

Registered Office: Flat No 1, Plot No 19, Nav Rajasthan Housing Society, Shivaji Nagar, Pune - 411016 Website: www.paragmilkfoods.com, Email id: investors@parag.com Tel. No.: 022-43005555 | Fax No. 022 - 43005580

NOTICE REGARDING EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting (EGM/ Meeting) of Parag Milk Foods Limited (Company) will be held through VC / OAVM on Saturday, May 3, 2025 at 10.30 a.m. (IST) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations).

In accordance with Ministry of Corporate Affairs vide its General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being No. 09/2024 dated September 19, 2024 and SEBI vide its circular dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being SEBI Circular No SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/ CIR/2024/133 dated October 3, 2024, the Notice of the EGM, along with the e-voting instructions have been sent on April 11, 2025 in electronic mode to the Members whose email addresses are registered with their respective Depository Participant(s) (DP). The Notice of EGM is also available on the Company's website at www.paragmilkfoods.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. The Notice of the EGM is also available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. Manner of registering updating email addresses:

-Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their email addresses with their DPs, are requested to register/update their email addresses with the relevant DPs.

-Member who have acquired shares after sending of the Notice of the EGM through electronic means but before the cut-off date may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if a Member is already registered with NSDL for remote e-voting, then the Member may use the existing User ID and Password and cast their vote -All the shareholding of the Members of the Company as on date is in dematerialized form, hence, the requirement of complying with the procedure / disclosures with regards to physical shareholders is not applicable to the Company.

Instruction for casting vote through e-voting: Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and

Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means (e-voting/ remote e-voting) on the resolution set forth in the Notice of the EGM. The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide e-voting facility. Members may cast their votes

remotely, using the electronic voting system of NSDL on the dates mentioned herein below. . The manner of remote e-voting and e-voting during EGM by Members holding shares in dematerialised mode and for Members who have not registered their email address is set forth in the Notice of the EGM

 Only those Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, Information and Instructions including details of user ID and password relating to e-voting have been sent to the members

through email. The same login credentials should be used for attending the EGM through VC/ OAVM. Members attending the EGM who have not cast their vote by remote e-voting prior to EGM shall be eligible to cast their vote

through e-voting during the EGM. Members who have voted through remote e-voting before the EGM shall be eligible to attend the EGM, however, they shall not be eligible to vote at the Meeting.

The remote e-voting facility will be available during the following period:

Cut-off Date (close of business hours) for determining voting rights of Members	Saturday, April 26, 2025	
Commencement of remote e-voting period	Wednesday, April 30, 2025, 9.00 a.m. (IST)	
End of remote e-voting period	Friday, May 2, 2025, 5.00 p.m. (IST)	

 The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall forthwith be disabled by NSDL upon expiry of aforesaid period. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the member cannot

 Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the EGM and in particular, instructions for joining the EGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the EGM. The Company has appointed Mr. Bhaskar Upadhyay from M/s. N.L. Bhatia & Associates, Practising Company Secretaries

(FCS No. 8663 and CP No. 9625), to act as the Scrutinizer, to scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent The result of e-voting will be declared within two working days of the conclusion of the Meeting and the same, along with

the Scrutinizer's Report, will be placed on the website of the Company and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com The result will also be simultaneously communicated to the Stock Exchanges. . In case of any query regarding e-voting, Members may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and

e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to Mr. Sagar Gudhate, Senior Manager, NSDL, having address at Trade World, A wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at the designated e-mail ID at evoting@nsdl.com.

By Order of the Board of Directors For Parag Milk Foods Limited Virendra Varma

Company Secretary & Compliance Officer

FCS No: 10520

Mumbai April 11, 2025

PUBLIC ANNOUNCEMENT

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT AN OFFER DOCUMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, **OUTSIDE INDIA.**



Our Company was originally incorporated as 'Tirupati Texknit Limited on September 29, 1978 as a company limited by shares under the Companies Act, 1956. A certificate of commencement of business was granted to our Company on September 30, 1978 by the Registrar of Companies, Delhi & Haryana ("RoC"). Further pursuant to Section 13 of Companies Act, 2013 and other relevant provisions, name of our Company was changed to T. T. LIMITED and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name dated January 15, 1998 under the Companies Act, 1956 was issued by deputy registrar of companies. Our Company pursuant to a resolution passed in the meeting of Board of Directors on December 16, 2024 have shifted its Registered Office from 879, Master Prithvi Nath Marg, Karol Bagh, New Delhi- 110005 to Poddar House, 2nd Floor, 71/2C, Rama Road, Moti Nagar, New Delhi - 110015 i.e. within the local limits of City w.e.f. from December 16, 2024. The Corporate Identification Number of our company is L18101DL1978PLC009241

Registered and Corporate Office: Poddar House, 2nd Floor, 71/2C, Rama Road, Moti Nagar, New Delhi - 110015; Tel: +91 11 45060708; Fax: N.A. E-mail: newdelhi@ttlimited.co.in; Website: www.ttlimited.co.in;

Contact Person: Pankaj Mishra, Company Secretary and Compliance Officer; Corporate Identification Number: L18101DL1978PLC009241

PROMOTERS OF THE COMPANY: RIKHAB CHAND JAIN

NOTICE

ISSUE OF UPTO ["] FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1/- EACH ("RIGHTS EQUITY

SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ ["]/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ ["] PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 4,000 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF ["] RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY ["] FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON ["], ["] (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS ["] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 138 OF THE DRAFT LETTER OF OFFER.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 72(2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended (the "SEBI ICDR Regulations"), to state that T.T. Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of equity shares to equity shareholders on rights basis and filed the DLOF dated April 10, 2025 with the BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") collectively referred to as the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed.

Pursuant to Regulation 72(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DLOF filed is open to public, for comments, if any Since the Issue size is less than ₹ 5,000 lakhs, the DLOF shall be hosted on the website of recognized stock exchanges where the equity shares are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India at www.nseindia.com and the website of the Company i.e. T.T. Limited at www.ttlimited.co.in and the website of the Lead Managers i.e. Sumedha Fiscal Services Limited at www.sumedhafiscal.com. All members of the public are hereby invited to provide their comments on the DLOF with respect to the disclosures made in the DLOF. The public is requested to send a copy of the comments sent to the Company and to the Lead Managers to the Issue at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by the Company or by the Lead Manager on or before 5 p.m. on the 21st (twenty first) day from the aforementioned date of filing the DLOF.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. Please note that the distribution of the DLOF and the Issue of equity shares on rights basis to persons in certain jurisdictions outside India may be restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Accordingly, any person who acquires Rights Entitlements or Rights Equity Shares will be deemed to have declared, warranted and agreed that at the time of subscribing for the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, such person is not and will not be in the United States and/or in other restricted jurisdictions. The Rights Equity Shares of the Company have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in any other jurisdiction which have any restrictions in connection with offering, issuing and allotting Rights Equity Shares within its jurisdiction, and/or to its citizens. The offering to which the DLOF relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or any other jurisdiction other than India or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlement.

funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read "Risk Factors" carefully before taking an investment decision in relation to this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and the Issue including the risks involved. The securities being offered in the Issue have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the DLOF. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page 27 of the DLOF before making an investment in this Issue.

Investments in equity and equity related securities involve a high degree of risk and investors should not invest any

For details of the share capital of the Company, see "Capital Structure" on page 63 of the DLOF. The liability of the members of our Company is limited.

The existing Equity Shares are listed on BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE). Note: Capitalized terms not defined herein shall have the same meanings ascribed to such terms in the DLOF.



6A Geetanjali, 6th Floor, 8B Middleton Street, Kolkata - 700 071,

West Bengal, India. Telephone: +91 33 2229 8936 / 6813 5900 Facsimile: N.A.

Website: www.sumedhafiscal.com

Date: April 11, 2024

Place: New Delhi

Investor grievance: mb_compliance@sumedhafiscal.com Contact Person: Ajay K Laddha SEBI Registration Number: INM000008753 Validity of Registration: Permanent

Email id: tt_rightsissue@sumedhafiscal.com

BEETAL FINANCIAL & COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local

Shopping Centre, New Delhi 110062, India

Telephone: 011-29961281-83/26051061

Facsimile: N.A. Email: beetal@beetalfinancial.com/ beetalrta@gmail.com Website: https://www.beetalmail.com/ Investor grievance e-mail: investor@beetalfinancial.com Contact Person: Punit Mittal

SEBI Registration No.: INR000000262 Validity of Registration: Permanent For and on behalf of T.T. LIMITED

Pankaj Mishra Company Secretary and Compliance Officer

Disclaimer: "T.T. Limited" is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on rights basis and has filed a DLOF with BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE). The DLOF shall be available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and the website of the Lead Manager at Sumedha Fiscal Services Limited at www.sumedhafiscal.com. Investors should note that investment in securities involves a high degree of risk and are requested to refer to the DLOF, including the section "Risk Factors" beginning on page 27 of the DLOF."

New Delhi

चालान संख्या

निवास पता : वार्ड नंबर 19, भेरूपुरा बरली,

अकलेश रोड, झालारपाटन, जिला- झालायाड,

रिलायंस एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी लिमिटेड 11वीं मंजिल, उत्तर दिशा, आर—टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063

U GRO (अचल संपत्तियों के लिए)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें उधारकर्ताओं और गारंटरों से उक्त मांग नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया था। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने दिनांक 29.12.2017 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के तहत निम्नलिखित उधारकर्ताओं की वित्तीय आस्तियों को अपने सभी अधिकार, शीर्षक और हित के साथ–साथ सभी अंतर्निहित सुरक्षा हितों को रिलायंस एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी लिमिटेड, आरएआरसी 048 ट्रस्ट के ट्रस्टी के पक्ष में

उधारकर्ताओं और गारंटरों द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ताओं और गारंटरों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि रिलायंस एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी लिमिटेड के नीचे हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण और पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन . अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को यहां वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा आम जनता को इस प्रकार आगाह किया जाता है कि वे इन संपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन–देन न करें तथा

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो स्रक्षित परिसंपत्तियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

संपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन–देन रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा उस पर दी जाने वाली राशि तथा ब्याज के लिए प्रभारित किया

क्र		बंधक रखी गई संपत्तियों का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	ट्रस्टी के रूप में कार्य करना	राशि ओ/एस
			कब्जे की तिथि	समझौते की तिथि	
1	1. मैसर्स जय श्री साई आर्ट, श्री पुष्पेंद्र मिश्रा, पुत्र श्री सुरेश चंद्र मिश्रा और श्री नरेंद्र मिश्रा, पुत्र श्री सुरेश चंद्र मिश्र	संपत्ति संख्या बी—26, 60.64 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, खसरा संख्या 442—मिन का हिस्सा, कांति नगर एक्सटेंशन, गांव उल्धनपुर इलाका शाहदरा, दिल्ली—110051 के क्षेत्र में स्थित है और उक्त संपत्ति की सीमाएं निम्नानुसार हैं:—उत्तर — संपत्ति संख्या बी—27 दक्षिण — संपत्ति संख्या बी—26—बी पूर्व — सड़क 15 फीट पश्चिम — संपत्ति संख्या बी—26—सी	20.11.2024	आरएआरसी 040 (आईबी रिटेल) ट्रस्ट 29.12.2017	रु. 46,30,112.46 / — (रुपये छियालीस लाख तीस हजार एक सौ बारह और छियालीस पैसे मात्र) 31.10.2024 तक। साथ ही उस पर ब्याज और 01.11.2024 के बाद ऋण खातों पर लगने वाला शुल्क

दिनांकः 09.04..2025 स्थानः दिल्ली

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड SPARK MINDA

(प्राधिकृत अधिकारी)

मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड CIN: L74899DL1985PLC020401

पंजीकृत कार्यालयः ए-15, अशोक विहार, फेस-।, दिल्ली - 110052 कॉर्पोरेट कार्यालय: डी-6-11, सैक्टर-59, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश दरभाष: +91-0120-4442500

वैबसाइटः www.sparkminda.com, ई-मेलः investor@mindacorporation.com

डाक मतपत्र और ई-वोटिंग की जानकारी के लिए अधिसूचना का शुद्धिपत्र

सदस्यों को सचित किया जाता है कि :

पहुंचने के लिए वैबसाइट लिंक);

दिनांक : अप्रैल 11, 2025

मद संख्या संकल्प

स्थान : नोएडा

यह प्रकाशन 28 मार्च, 2025 को मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को भेजे गए 28 मार्च, 2025 के डाक मतपत्र नोटिस के अनुक्रम में एक शुद्धिपत्र है।

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने स्पष्टीकरणात्मक कथन और संशोधित डाक मतपत्र नोटिस के साथ शुद्धिपत्र की इलैक्ट्रॉनिक प्रतियां शुक्रवार 11 अप्रैल, 2025 को भेज दी हैं और इसे इलैक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दिया गया, जिनके ईमेल पते कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, डिपॉजिटरी के पास शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 ('कट-ऑफ तारीख') तक पंजीकृत हैं, ताकि निम्नलिखित मामलों के लिए इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से डाक मतपत्र द्वारा कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी ली जा सके: क्र.सं. संकल्प का प्रकार संकल्प

1.	विशेष संकल्प	76,50,000 शैयर वारंट कंपनी के प्रमोटर मिंडा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को जारी करना
इस शुद्धिप	त्र के अनुसरण में, कंपनी के सदस्यों	को सूचित किया जाता है और अनुरोध किया जाता है कि बेहतर स्पष्टता और

समझ के लिए, डाक मतपत्र की सूचना के मद संख्या 1 से संबंधित व्याख्यात्मक कथन में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया

- जाएगा और शुद्धिपत्र में निर्धारित तरीके से पढ़ा जाये। (i) पुष्ठ संख्या 12 पर पैरा (i) शीर्षक "अधिमान्य निर्गम का उद्देश्य" के साथ:
- (ii) पुष्ठ संख्या 13 पर, पैरा (i) का अंतिम उप-पैरा शीर्षक "निर्गम आय का अंतरिम उपयोग" के साथ; (iii) पृष्ठ संख्या 16 पर, पैरा (vii) (d) शीर्षक "अंडरटेकिंग" के साथ – (शेयर वारंट के मूल्य की पुन: गणना);
- (iv) पृष्ठ संख्या 16 पर, पैरा (xi) (मैंसर्स बीएमपी एंड कंपनी एलएलपी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सैक्रेंटरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र तक
- (v) पुष्ठ संख्या 17 पर, पैरा (xii) (g) शीर्षक "अन्य प्रकटीकरण" को हटा दिया गया है (सेबी (एसएएसटी) विनियम, 2011 के अनुपालन से संबंधित)

(vi) पुष्ठ संख्या 18 पर पैरा (xx) के बाद एक नया पैरा (xxi) जोड़ा गया है (कंपनी के नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं)

संशोधित डाक मतपत्र नोटिस के साथ डाक मतपत्र की सूचना का शुद्धिपत्र कंपनी की वैबसाइट www.sparkminda.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वैबसाइटों यानी बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर क्रमशः www.bseindia.com, www.nseindia.com और एनएसडीएल की वैबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है 28 मार्च 2025 के डाक मतपत्र में प्रकाशित शेष सभी विवरण समान हैं और डाक मतपत्र ई-वोटिंग अवधि यानी 27 अप्रैल 2025 के अंत में कोई बदलाय नहीं हुआ है। साथ ही, शेयर धारक/सदस्य जो पहले ही मतदान कर चुके हैं और उन्हें कोई आपत्ति है, वे श्री बिस्वजीत घोष (एफसीएस-8750, सीपी नंबर 8239), पार्टनर या श्री प्रमोद एसएम (एफसीएस-7834, सीपी नंबर-13784) पार्टनर, बीएमपी एंड कंपनी एलएलपी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को biswajit@bmpandco.com पर ईमेल कर सकते हैं, जो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए जांचकर्ता ('जांचकर्ता') हैं।

ई-वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में, कृपया संपर्क करें; सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तीसरा तल, नमन चैंबर, प्लॉट सी-32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र — 400051 को निर्दिष्ट ईमेल पते: evoting@nsdl.com या टेलीफोन नंबर 022-48867000 पर संपर्क करें।

> मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए हस्ता /-

प्रदीप मान कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या : ए-13371

DIGISPICE डिजिस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः जे ए-122, पहली मंजिल, डीएलएफ टॉवर ए, जसोला, नई दिल्ली - 110025

सीआईएनः L72900DL1986PLC330369

टेलीफोनः 011-41251965, ईमेलः <u>complianceofficer@digispice.com;</u> वेबसाइटः <u>www.digispice.com</u>

डाक मतपत्र सूचना

सदस्यों को एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 110 एवं अन्य लागु प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44, के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र 9/2024 दिनांकित 19 सितम्बर, 2024 एवं किसी अन्य लागू कानून, नियम, विनियम, परिपत्र तथा दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के अनुपालन में डिज़िस्पाइस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों के विचार हेतु निम्न उल्लिखित व्यवसायों पर, डाक मतपत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से ('रिमोट **ई-वोटिंग')** संकल्पों का अनुमोदन कर पारित करने का प्रस्ताव किया जाता है:

	The Control of the Co	
1.	विशेष प्रस्ताव	श्रीमती वीना विकास मंकर (डीआईएनः 00004168) को कम्पनी की एक गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए।
2.		श्री रमेश वेंकटरमन (डीआईएनः 03545080) को कम्पनी के गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति
3.	साधारण प्रस्ताव	श्री रमेश वेंकटारमण (डीआईएन: 03545080) को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर कार्यालय या लाभ के स्थान के घारण करने के लिए अनुमोदन।

संकल्प का विवरण

कम्पनी ने उन सदस्यों, जिनका नाम शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025 ('कट-ऑफ तिथि') के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर, लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज था, को कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए'), मास सर्विसेज लिमिटेड, या डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) ('डीपी') के साथ पंजीकृत उनके ईमेल पतों पर सूचना भेजने का काम 11 अप्रैल, 2025 को पूरा कर लिया है। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में प्रदर्शित हैं, वे सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि पर कम्पनी की कुल जारी और प्रदत्त समता शेयर पूँजी में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होगी।

कम्पनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग 12 अप्रैल, 2025 को 9:00 बजे पूर्वाह (आईएसटी) से आरम्भ होगी और 11 मई, 2025 को 5:00 बजे अपराह (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्य, जिन्हें किसी भी कारण से सूचना प्राप्त नहीं हुआ है, या जिनका ईमेल पता डिपॉजिटरी अथवा आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे कम्पनी को complianceofficer@digispice.com या कम्पनी के आरटीए को investor@masserv.com पर ईमेल लिख सकते हैं। सूचना को कम्पनी की वेबसाइट (www.digispice.com); एनएसडीएल (www.evoting.nsdl.com); बीएसई (www.bseindia.com); या एनएसई (www.nseindia.com) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत / प्रश्न के मामले में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारक के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न तथा ई-वोटिंग युजर मैनुअल संदर्भित करें या 022 - 4886 7000 या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजें या आरटीए से 011-26387281, 82, 83 अथवा investor@masserv.com पर संपर्क करें। शिकायतें आरटीए वेबसाइट www.masserv.com के निवेशक लॉगिन अनुभाग के शिकायत पृष्ठ पर भी दर्ज की जा सकती हैं।

डाक मतपत्र का परिणाम मतदान की समाप्ति के दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा। उक्त परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट सहित, कम्पनी की वेबसाइट (www.digispice.com), NSDL (www.evoting.nsdl.com) बीएसई (www.bseindia.com) और एनएसई (www.nseindia.com) पर अपलोड किया जाएगा। परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय में भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

कृते डिजिस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

दिनांक: 11 अप्रैल, 2025 स्थानः नोएडा

रुचि मेहता कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

य जीआरओ कैपिटल लिमिटेड चौथी मंजिल, टॉवर ३, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला,

कब्जे की सूचना परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें) चल संपत्ति के लिए

जबिक, नीचे हस्ताक्षरकर्ता यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते जिसका पंजीकृत कार्यालय 4वीं मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कूर्ला मुंबई 400070 में है, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम उ के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 06–08–2024 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ताओं 1) हमजा कटर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्कस और 2) जावेद अहमद और 3) मोहम्मद नवेद और 4) जरीफ अहमद और 5) एबीएस स्पोर्ट्स जिनके पास ऋण खाता संख्या UGDELMC0000017308 है, को नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 37,17,224 / – (रुपये सैंतीस लाख सत्रह हजार दो सौ चौबीस मात्र) दिनांक 05-08-2024 तक ब्याज सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भूगतान

उधारकर्ताओं द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ताओं और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, 10वें अप्रैल 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन युजीआरओ कैपिटल लिमिटेड के अधीन होगा, जिसकी राशि 05-08-2024 तक रु. 37,17,224 / - (रुपये सैंतीस लाख सत्रह

हजार दो सौ चौबीस मात्र) होगी, साथ ही उस पर ब्याज भी लगेगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

स्रक्षित परिसंपत्ति(ओं) की अनुसूचीः

सीएनसी फाइबर लेजर कटिंग मशीन आकार 1500'3000 मिमी 3 सपरकट किलोवाट लंबाई के साथ यपीएस 40 केवीए के साथ वेल्डिंग ENVENTA&231010605 और इंडस्ट्रीज

स्क्रू कंप्रेसर SC00370 मॉडल: — **ES** हस्ता/-(प्राधिकृत अधिकारी) यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड के लिए थानः मेरठ-उत्तर प्रदेश दिनांकः 12.04..2025

क्र.सं.

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 09, सामुदायिक केंद्र, बंसत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली- 110057 शाखाँ कार्यालय : कार्यालय सं ए-6, तृतीय तल, सेक्टर- 4, नोएडा- 201301 सार्वजनिक सुचना (ई-नीलामी) अचल संपत्ति के विक्रयार्थ

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ९(१) के अंतर्गत) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) के पास बंधककृत अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सूचना।

नदद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों), अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारिय प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचट संपत्तियाँ, जिनका अधिग्रहण हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभृत ऋणदाता) द्वारा कर लिय गया है, का विक्रय 29–अप्रैल–2025 (ई–नीलामी तिथि) को ''जैसी है जहाँ है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहाँ जो कुर ो हैं' आधार पर, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं अथवा गारंटरों की ओर से देय—भग्तेय बकाया राशिय की वसूली के लिये किया जाायेगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। सार्वजनिव —नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए धराज को डिमांड ड्राफ्ट / आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से बोर्ल प्रपत्र के साथ हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के पास 28-अप्रैल-2025 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. ए–6, तृतीय तल, सेक्टर– 4, नोएडा– 201301 पर प्रस्तुत 🖊 जग हरना होगा।

खाता सं.	सह—उधारकर्ता(ऑ) / गारंटर(रों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि के नाम	की तिथि तिथि के अनुसार राशि	का प्रकार (रचनागत / भौतिक के अंतर्गत)	मूल्य	राशि
HHFDELHOU 19000002696, HHFNOILAP 23000036578	आदेश कुमार, सरोज शर्मा	15—02—2024, रु. 28,25,493 / — 10—04—2025 के अनुसार	भौतिक	रु. 19,20,000 ∕ —	रु. 1,92,000 ∕ —
संपत्ति का विवरण	ः सं. ई–60 धारक भूखण्ड	पर स्थित संपत्ति के	छताधिकारों के बि	ना प्रथम तल	का बाई ओर

उधारकर्ता(ओ) / मांग सचना अधिग्रहण आरक्षित धरोहर

वाला हिस्सा, जो 66.5 वर्ग गज माप की भूमि पर निर्मित, खसरा सं. 21/3 में से, ग्राम– मटियाला के क्षेत्र, नन्हे पार्क के नाम से विदित आबादी, उत्तम नगर, नई दिल्ली— 110059 में स्थित है, जो विद्युत, जल एवं जलमल संयोजन 5 साथ जुड़ी हुई, सीढ़ी तथा उपमार्ग के सामान्य अधिकारों के साथ, अवस्तम तल पर एक बाइक की पार्किंग व नाथ तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– उत्तर– अन्य का भूखण्ड, पूर्व– भूखण्ड सं. 61, दक्षिण– भूखण्ड सं. 60 क भाग, पश्चिम— संडुक। नियम एवं शर्ते :

—नीलामी, पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से दिनाँक 29—अप्रैल—2025 (ई—नीलामी तिथि) क ाप. 2.00 बजे के उपराँत 10 मिनटों प्रत्येक के सीमित विस्तार के साथ आयोजित होगी। च्छुक क्रेताओं / बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे या तो आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से अथवा ''हीरे इाउँसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट / आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से धराज पशि जमा करें। ई—नीलामी के समापन के उपराँत असफल बोलीदाताओं को धराज राशि वापस कर दी जायेगी। ई—नीलामी के नियम एवं शर्ते

) ई—नीलामी "जैसी है जहाँ है आधार" और "जैसी है जो है आधार" और "वहाँ जो कछ भी है आधार" और "बिन किसी संसाधान आधार" पर आयोजित की जा रही है और "ऑनलाइन" आयोजित की जायेगी। (2) बोली विद्ध राशि 5. 15,000 / – (रुपये पंद्रह हजार मात्र) होगी। 3) ई—नीलामी, मैसर्स ई—प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (हेल्पलाइन नंबर : 07961200576 / 544 / 594 / 596

31 / 583 / 569, 6351896643 और ई—मेल support@auctiontiger.net/ maulik.shrimali@auctiontiger.net ह माध्यम से उनके वेब पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net पर आयोजित की जायेगी। (4) यहां संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है, जो कि प्रतिभृत ऋणदाताओं की जानकारी में है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताअ हो अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले, नीलामी में रखी गई संपत्ति के ऋणभारों, संपत्ति के स्वामित्व और संपत्ति क प्रभावित कररेवाले दावों / अधिकारों / बकायों के संबंध में अपनी स्वतंत्र पृछताछ कर लेनी चाहिये। इस संबंध ग –नीलामी विज्ञापन हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की किसी प्रतिबद्धता या किसी अभ्यावेदन का गठन नहीं करता और न ही गठन करता हुआ माना जायेगा। (5) प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावे अधिकारों / बकायों के लिये किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होंगे। विक्रय, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकर वं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत निर्धारित नियमों 🖊 शर्तों के अधीन होगा। ई—नीलार्म उ अन्य नियम एवं शर्ते निम्नलिखित वेबसाइट पर प्रकाशित की गई हैं : www.herohousingfinance.com 6) संपत्ति के विवरणों और संपत्ति के निरीक्षण के लिये मिस. इरशाद अली / ershad.ali@herohfl.com 802270415 तथा शेखर सिंह / 9711522275 / shekhar.singh@herohfl.com से संपर्क करें।

(7) संभावित बोलीदातागण, पूर्वानुमित प्राप्त करके 22-अप्रैल-2025 को मध्या. 11.00 से अप. 2.00 बजे के मध्य संपत्ति ऋणकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता हेतु १५ दिवसीय विक्रय सूचना

उपरोक्त संवर्णित ऋणकर्ता / बंधककर्ता / गारंटरगणें को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि र्वि धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत मांग सूचना में अंकितानुसार बकाया राशि का तिथि के अनुसार नियत ब्याज ए

व्ययों के साथ भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जायेगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई निकलती है, की वसूली आप से ब्याज एवं लागत सहित की जायेगी। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं रार्ती के लिये कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत

ऋणदाता) की वेबसाइट अर्थात् www.herohousingfinance.com पर उपलब्ध लिंक https://uat.herohomefinance.in/hero_housing/other-notice का संदर्भ ग्रहण करें।

प्राधिकृत अधिकारी

श्री सनील यादव, मोबाइल- 9818840495 ईमेल : assetdisposal@herohfl.com

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 09, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विकार, नई दिल्ली 110057,

दिनांक : 12—04—202**5**

स्थान : दिल्ली ⁄ राराक्षे

शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. ए-७, तीसरी मंजिल, सेक्टर-४, नोएडा-201301 सार्वजनिक सूचना (अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी)

[प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत] वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक अचल संपत्ति की बिक्री हेत सचना तद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) या उनके विधिक

इत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभृत लेनदार के पास संसक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल गंपतियां, जिनका कदजा होरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभृत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों अथवा जमानतियों से बकावों की वसूली के लिए 14 मई, 2025 (इं-नीलामी तिथि) को ''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'' और ''जो कछ भी है वहीं है'' आधार पर बेचा ताएगा। आरक्षित मृल्य और जमा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है। सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी को ढिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से बोली प्रपत्र के साथ सार्वजनिक ई-नीलामी में भाग लेने के लिए हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी के पास 13 मई, 2025 को शाम 5 बजे तक शास्त्रा कार्यालयः कार्यालय सं. ए-६, तीसरी मॅजिल, सेक्टर-४, नोएडा-201301 में जमा करना होगा।

त्रहण	कर्जदान(रो)/सह-	माँग सूचना	कको का	आरक्षित मृल्य
खाता	कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/	तिथि	प्रकार	धरोहर
सं.	विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि के नाम	तिथि तक गणि	(रवनात्मक/भौतिक कब्जे के तहत)	संशि
HHFDELHOU 19000002184	लता पत्नी विशाल, विशाल पुत्र स्मेश, नीरज राठी	17-01-2024, % 29,11,999/-	भौतिक	₹. 20,50,000/-
	Ta case and	10.04.2024 तक		五 2,05,000/-

तरफ, प्लॉट नंबर बी-७1, ब्लॉक-बी, एसएलएफ वेद विहार, खादुल्लाबाद, परगना और तहसील लोनी, पाजियाबाद, उत्तर 201102, कवर्ड एरिया 500 वर्ग फीट वानी 46.45 वर्ग मीटर, जिसमें एक ड्राइंग/डाइनिंग रूप, दो बेडरूप, शीपालय और रसोर्ड शामिल है। सीमाएं उत्तर: प्लॉट नंबर वी-100, पूर्व: फ्लैट नंबर जीएफ-2 (एम.आई.जी), दक्षिण कॉमन पैसेज और सीढियाँ, पश्चिमः फ्लैट नंबर जीएफ-4 (एम.आई.जी)

& HHFNSPIPL20000008541		万、20,95,273/-	HIIIIde	15,00,000/-	
	दीपा कुमारी	10.04.2024 市场		फ. 1,50,000/-	
संपत्ति का विवरणः फ्लैट संख्या	एसएफ-1, दूसरी मंजिल	(एमआईजी, बायां घर प	पश्चिमी भाग)	छत के अधिकार	

के साथ, कवर्ड एरिया 474 वर्ग फीट यानी 44.03 वर्ग मीटर जिसमें दो बेडरूम, एक ड्राइंग/डाइनिंग रूम, एक किच और दो शौचालय/स्नानघर और बालकनी हैं, प्लॉट संख्या 201, खसरा संख्या 85, गांव- सादुल्लाबाद, परगना और तहसील- लोनी, जिला- गाजियाचाद, उत्तर प्रदेश- 201102 पर निर्मित है। प्लॉट संख्या 201 की सीमाएं: पूर्व: प्लॉट संख्या २०२, पश्चिमः रास्ता २५ फीट और प्लॉट संख्या २००, उत्तरः अन्य को संपत्ति, दक्षिणः रास्ता २५ फीट और पाकं नियम एवं प्रार्ते : ई-नीलामी पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से 14 मई, 2025

(ई-नीलामी की तिथि) को 2.00 बजे अप. के बाद 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ सम्पन्न होगी rच्छक क्रेता/बोलीदाताओं को ईएमडी राशि आस्टीजीएस/एनईएफटी या डिमांड डाफ्ट/आस्टीजीएस/एनईएफटी के बाध्यम से ''हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पश्च में जमा करानी होगी। ईएमडी राशि ई-नीलामी के समापन बाद असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जाएगी। ई-मीलामी के नियम एवं प्रति : 1. ई-नीलामी ''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'', ''जो कर भी है यही

''' और ''बिना किसी आश्रय'' के आधार पर आयोजित किया जा रहा है और इसे 'ऑनलाइन' आयोजित किया जाएगा। 2. बोली वृद्धि राशि रु. 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) होगी।3. ई-नीलामी मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से (हेल्पलाइन नंबर: 07961200576/544/594/596/531/583/569, 5351896643 और ई-मेल support@auctiontiger.net/maulik.shrimali@auctiontiger.net) उनके प्रेस पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net पर आयोजित की जायेगी। 4. प्रतिभृत लेनदारों की जानकारी में संपत्ति पर कोई ऋगभार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक चोलीदाताओं को अपने बिल जमा करने से पहले, नीलामी में रखी गई संपत्ति के स्वामित्व और दावी/अधिकारों/चकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पुछताछ करनी चाहिए। इस संबंध में, ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। 5. प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभृत लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/चकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रयतंन अधितियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। ई-नीलामी के अन्य नियम और शर्ते निम्नलिखित वेबसाइटः www.herohousingfinance.com मे प्रकाशित की गई हैं 6. संपत्ति के विवरण और संपत्ति देखने के लिए श्री इरशाद अली ershad.ali@herohfl.com/ 8802270415 तथा शेखर सिंह/9711522275 shekhar.singh@herohfl.com से संपर्क करें। 7: संभावित बोलीदाता पूर्व अर्पाइंटमेंट के साथ 07 मई, 2025 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के बीच संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

उपर्युक्त कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती को एतद्वारा धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना में उल्लिखित राशि का भूगतान

कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को 30 दिनों की बिक्री सूचना

रीलामी की विधि से पहले ब्याज और व्यय के साथ करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी की बाएगी और बकाब राशि, यदि कोई भी, आपसे ब्याज और लागत के साथ वसुल किया जाएगा मिक्री के चिस्तृत निपमों और शर्तों के लिए, कृपया हीरो हाठसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभृत लेनदार) की वेबसाइट वेबसाइट www.herohousingfinance.com 또 현재 https://uat.herohomefinance.in/hero_housing/other-notice 전환 कते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

दिनांक: 12.04.2025

स्थानः दिल्ली/ग.ग.क्षे.

अधिकृत प्राधिकारी, श्री सुनील बादव, मो. 9818840495, ई-पेल । assetdisposal@herohfl.com

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पीरेशन लिभिटेड

me Loans क्यों क्यांतिक := प्योट-15, प्रधा राज संस्टार-44, इस्टीटपुराचन पृष्टिया, पुरस्ताम, हरिन शासा प्रता : नंबर 1012 प्रथम राज और्मशा रापर राप कालोनी बाडमेर-544001

तबकि अधोहस्ताक्षी ने इंडिया शेल्टर पाइनैस एँड कॉपॉरेशन लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी के रूप में किलीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और (प्रतिभूति) विता (धार्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिपृति हित (प्रयत्न) नियमावर्ती, 2002 के नियन 5 के साथ परित थारा 15(2) एवं 15(12) के अधीन प्रयत्न श्रवितयों का प्रयोग करते हुए एक गाँग सुधन इसमें आगे वर्षित चार्च के सामने वर्षित विधि को जारी की थी. जिसमें कर्लदार और सम्पत्ति के स्वामी/प्रतिषु से बकाया रात्रि का भूगतान उक्त सुधना की तिथि से 🐽 दिन के मीतर कर-की मांग की गई थीं। जबकि सम्पत्ति त्यामी और अन्य उकर कारण पत्ति पुकाने में असफल रहे हैं. एठवडाना अधोवर्षित कार्यवासे एपा सर्वत्वासमा को लावना दी जाती है कि अधोडस्टाकर्त ने वहां नीचे पर्णित सन्पतित / प्रो का काजा उसत नियमवासी के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उसत अमिनियम की धारा 18(4) में अभीन उसको प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येव काते के समने दर्गित तिकि को प्राप्त कर सिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तावा सर्वसाधारण को व्रम सम्पति / यो के सक्वेप में सव्ववहार नहीं करने हेंत् साववान किया जाता है तब

इन सम्बन्धि / यो के संबंध में क्षेत्रे में सरकरहार इतिया शेस्टर कार्डमेंस कार्डोग्डन लिपिटेंड की नीचे वर्षित बकरका राशि तथा एस पार साम, लागत इत्यादि के प्रभाराधीन होगा। कर्वदार/गारंटर प्रमारित / बंधक सम्परित (सम्परित की विधि मांग सूचना की तिथि तक (सम्पति स्वामी) का नान के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन 08-04-2025 एवं ऋण खाता नंबर बी/बीमती निरूपा देवी एवं बी/बीमती चुरेश जन संख्या 102/77 तेलियों का वास बाठमेर जिला बाढमेर-344001. 8 10 037 /- विकास आता ज्यांक इस साम बाढमेर सहबील एवं जिला बाढमेर **पीहर्यी -** पुरुष : बीमती हलीमा पत्नी निजासुद्वी तेली का प्लॉट. सैतीस मात्र) 66-02-2024 तक देग, साथ र

परियम : भी चुन्ती लाल खन्नी का मकान, उत्तर- गेट और 7 फीट आम 07-02-2024 में खान और मुनलान की तिथि तब गली. दक्षिण- भी धनश्याम यत्र राज खत्री का मकान अन्य शुक्क और लागत LA15CLLONS000005037720/AP-10080480 रथान : राजस्थान, तिबि : 12-04-2025 कृते इंडिया शेल्टर फाइर्नेस कार्पीरेशन लिमिटेड (प्राचिक्त अधिकारी)

किसी पूछताछ के लिए क्यवा सम्पर्क करें : श्री विजय राणा (+91 79886 05030) अचल सम्पत्ति के लिए इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड कब्जा सचना dome Loans पंजी कार्यांतय >- प्लीट-15, एउए ताल, संकटन-44, इंक्टीट्यूक्टनल एरिया, नुस्ताल, हरियागा-122 002

बाखा पता : आस्त्रवात : निर्मय विश्व वर्षित, निर्माट एक्सीएकरी वैता, सरमायन, राजस्थान-३०००० जबकि, अधोहरताक्षरे में इतिया शेल्टर पराइनेंस एंड कॉपरिशन लिमिटेड के प्रधिकृत अधिकारी के रूप में, विश्वीय आरिट्यों का प्रतिकृतिकरण एवं पुनरनिर्माण और (प्रतिकृति) हिंठ (प्रवर्त-अधिनिक्तम, 2002 वो अधीन और प्रतिन्ति तित (प्रतान) नियमावली, 2002 के नियम 3 के लाथ परित बाग 19(2) एवं 19(12) के अधीन प्रदाल शक्तियों का प्रवान करते हर एक मांग साथ इसमें आने वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कार्यदार और सम्पत्ति के स्थामी /प्रतिम् से बकावा नाशि वा भूनतान जवत सुवना की तिथि से 60 दिन के मीतर कर की मान की नई थी। जबकि सम्पर्तत नवामी और अन्य एका बकाया पत्ति एकाने में असकार रहे हैं एतवड़ाश अधेवर्गित कवीड़ारे तथा सर्वसावरण को सकत है कि अधीहरूत ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति / यों का कब्दा तका नियमवर्ती के नियम 8 एवं ५ के साथ परित तका अधिनियम की वादा 19(4) के अधीन उसको प्रदेश कवितामें का प्रयोग करते हुए प्रार्थ कारों के आपने परिचेत को पान कर विचा है। जब कार्यवार को विशेष रूप से तहर राजेशायर को इन सम्पति।/ हो के संबंध में संस्थातार नहीं करने हेंद्र राजधान किया जाता है।

इन सम्पत्ति / से संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया डोक्टर माइनैस सापीरेडल सिनिटेंड की नीचे वर्णित बकाया राहि तथा जस पर व्याप, लागत इत्याचि से प्रचारावीन होगा। प्रभारित/बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति कर्जदार/गाएंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम मांग सचना की तिथि. की तिथि के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन एवं ऋण खाता नंबर मांग सूचना की तिथि 07-04-2025 तक बकाया राशि औ/औमती विनोद बाई एवं स्वाम सिंह सम्पतित 🛎 सभी जारा एवं छांत : पाइटा नावर 64230, प्राम एवं ग्राम पंचायत - युरादिया माना, पंचायत समिति - भवानी मद्री, जिला-निवास यता : 97. ब्राह्मणों कर मोहदला ग्राम एवं ग्राम सालावास राजस्थान-320002 चीहव्यी – पूरवः मान सिंह का मकान, सः 4.30,512 / - (रूपए चार सार सीस हजार गांच सी करह स्वर पंचायत – गुराडिया माना पंचायत समिति – भवानी पश्चिम : बालू तिह की भूमि, छत्तर- परमानंद का मकान, दक्षिण- रास्ता मंडी, जिला- झालावाड, राजस्थान-326502 10-01-2024 तक देव साथ 11-01-2024 से ध्याज और मुगतान की ऋण खाता नंबर : HL12CHLONS000005073749/AP-10175399 तिथि एक अन्य मुक्क और लागत म्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : पट्टा नंबर 79830, बाम -मांग सूचना 14-01-2024 **07-04-2025** श्री/बीमती मुन्ना बाई एवं ईश्वर सिंह गुडा, ग्राम पंचायत — गुडा, पंचायत समिति — भवानी मडी, क् 4,27,369 / — (रूपए चार **सांबेरिक** निवास पता - ब्राह्मणी का मोहरूमा गाम - गृहा, ग्राम जेला- झालावाड, राजस्थान-326512, क्षेत्रफल परिमाप : 621 पंचायत - गुडा, पंचायत समिति - भवानी मंडी, जिला-सारा सलाईस हजार तीन सौ चनहर वर्ग फीट, चीहददी – मूरब : मेहरान सिंह/रादय सिंह, परिचम झालाबाह, राजस्थान-326512 जन्म पता : पट्टा नेबर मात्र) 10-01-2024 तक देय, साध सोभा राम/दया राम जत्तर- आम रास्ता, दक्षिण- श्याम 79830. ग्राम - गुडा, ग्राम मंत्रायत - गुडा, गंबायत समिति |शिड / स्वर शिड 11-01-2024 से ब्याज और भुगतान की श्वानी मंदी, जिला- झालावाड, राजस्थान-326512 थि तक अन्य शुल्क और लागत ऋण खाता नंगर : HL12RNLONS000005074523/AP-10178588 भी/श्रीमती लिलता बाई, रमेश चंद एवं मुकेश म्पतित के सभी अंश एवं खंब : पट्टा नंबर 384, रियत : वार्ड मांग सूवना 14-01-2024

चौडददी – पूरव : शंभू जी का मकान, पश्चिम : खुन्नी लाल राजस्थान-326023 जी का मकान, उत्तर- ओम माली की भूमि, दक्षिण- रोड 15 भएग स्थाल भीवर : HL2000003312/AP-0337206 गवान की तिथि तक अन्य शत्क और लागर कृते इंडिया शेल्टर फाइनैस कार्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकत अधिकारी स्थान : राजस्थान, तिथि : 12-04-2025 किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री विनय राणा (+91 79886 05030)

नंबर 17, भेरूपुरा, झालारपाटन, तहसील झालारपाटन, जिला-

झालावाह, क्षेत्रफल परिमाप । 18 गुणा 24 वानी 432 वर्ग फीट,

इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड **Home Loans** अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) के नियम 9(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री नोटिस। एतदुद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों), सह–कर्जदारों और जमानतदारों या उनके कानुनी उत्तराधिकारी(यों) या प्रतिनिधियों को सुचित किया जाता है कि इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (जिसे इसके बाद प्रतिभृत लेनदार कहा जाएगा), पंजीकृत कार्यालय 6वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 4 गुरुग्राम हरियाणा–122002 के पास बंधक/प्रभारित

ऋण खाता संख्या/एपी संख्या तथा कर्जदारों/सह- कर्जदारों/गारंटरों के नाम		अचल संपत्ति∕ प्रतिभूत संपत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि तथा प्रकारः	आरक्षित मूल्यः	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि तथा सम
LA20CLLONS0000050 58045/AP-10132622/ श्री / श्रीमती आशा पालीवाल (कर्जदार) श्री / श्रीमती ओम प्रकाश पालीवाल (सह-कर्जदार)	रु. 8,45,801/- (रुपये आठ लाख पँतालीस हजार आठ सौ एक मात्र) बोली चृद्धि राशि : रु. 10,000/-	समस्त भाग, कुल भूमि 3060 वर्ग फुट सीमा:-उत्तर-चौक, दक्षिण-किशन लाल, पूर्व-भंवर लाई पुत्र जेठ मल, पश्चिम-संगी दान पुत्र चुन्नी लाल	सांकेतिक/ तिथि तक कुल बकाया रु. 9,48,796.08/- तिथि 30 अप्रैल 2025 तक जमा धरोहर रारि रु. 53,13	श (ईएमडी)	25-04-2025 (10:00 बजे पू से 05:00 बजे उ ईएमडी जमा करने अन्तिम तिथि : 26-04 नीलामी की तिथि समय: 28-04-2
		287, ग्राउंड फ्लोर, आदर्श नगर फलोदी जोधपुर- रिंशन लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएर		मा ।	SV.
HL34CHLONS080 005059346 /AP- 10139586 / श्री / श्रीमती सुगना देवी (कर्जदार) श्री / श्रीमती बाबू लाल	रु. 5,82,097/- (रुपये पांच लाख बयासी हजार सत्तानबे मात्र)	पट्टा संख्या 04, मिसल 1/2019-20 खसरा संख्या 21 ग्राम पंचायत रामसनी, पंचायत सिमित बिलाड़ा जिला जोधपुर राज 342601 पर स्थित संपत्ति का समस्त भाग। कुल भूमि 1730 वर्ग फीट सीमा:- पूर्व- रास्ता, पश्चिम-रास्ता, उत्तर- विद्या देवी पत्नी उदाराम का मकान, दक्षिण- तेजा राम	सांकेतिक / तिथि तक कुल बकाया रु. 6,79,759.68/-	रु.4,59,500/- (रुपये चार लाख उनसठ हजार पांच सौ मात्र) जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	25-04-202! (10:00 बजे ए से 05:00 बजे डे ईएमडी जमा करने की तिथि : 26-04-20 नीलामी की तिथि एवं सम

➡IndiaShelter इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 'Home Loans पंजीकृत कार्यालय : भूखंड- 15, 6ठवां तल, सेक्टर- 44, इस्टिट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा- 122002

शिखा कार्यालय : दकान सं ६ ऊपरी भ तल. सी.आर. मॉल, वर्च रोड, राम नगर कॉलोनी, आगरा 282002 अचल संपत्ति की अधिग्रहण सुचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस एण्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत. एक माँग सचना यहां इसमें इसके उपरांत अंकितानसार खाता के समक्ष उल्लिखित तिथि पर निर्गत की थी. जिसमें ऋणकर्ताओं तथा संपत्ति के स्वामी 🖊 प्रतिभतिधारक को भी सचना में अंकित राशि का उक्त सचन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि संपत्ति के स्वामी तथा अन्य जन निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतर्दद्वारा अधोवर्णित ऋणकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति / यों का उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथियों पर अधिग्रहण कर लिया है। अतः अब ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति 🖊 यों का लेन—देन न करें तथा संपत्ति 🖊 यों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन—देन, निम्नानुसार अंकित एक राशि और इस राशि पर ब्याज, लागतों इत्यादि हेतु इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता / गारंटर (संपत्ति के स्वामी) प्रभारित / बंधककृत संपत्ति का विवरण माँग सूचना की तिथि, माँग सूचना की तिथि (संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश निम्न का नाम तथा ऋण खाता संख्या के अनुसार देयराशि की तिथि लॉट एरिया 77.5 वर्ग गज प्लॉट एरिया 155 श्री / श्रीमती महेश गिरि गोसाई और श्री / श्रीमती 08.04.2025 वर्ग गज खसरा नंबर 17 मौजा– कहरई तहसील 16,93,267.55 / — (रुपये सोलह लाख मुकेश गिरि और श्री/श्रीमती राम बाबू, दोनों का और जनपद–आगरा में स्थित संपत्ति का पूरा पता : खेड़ा भगौर, मनकेड़ा, निकट मालपुरा, तिरानबे हजार दो सौ सडसठ और पचपन पैसे हिस्सा, सीमा:- पूर्वः रास्ता और निकास, पश्चिमः अधिग्रहण आगरा– 283102 उत्तर प्रदेश (ऋण खाता संख्या मात्र) 31.12.2021 तक 01—जनवरी—2022 से अन्य का प्लॉट, उत्तरः उक्त प्लॉट का शेष भाग, HL2600000209 / AP-0501567) लागू भावी ब्याज के साथ पूर्ण भूगतान होने तक दक्षिणः अन्य का प्लॉट सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों सहित।

कृते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी) स्थान : आगरा, दिनाँक : 12–04–2025 कसी भी प्रश्न के लिए, कृपया श्री सुधीर तोमर (+91 9818460101) से संपर्क करें। "प्रपत्र सं. आईएनसी—26"

थनी (निगमन) नियम. 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उपधार (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में बीरकेनस्टॉक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

(CIN: U25209HR2019FTC096175) जेसका पंजीकृत कार्यालय : सीटी09-006 एण सीटी09-007, 09वां पलोर, कॅपिटल टॉवर 1, सैक्टर-26. गुडगांव, गुरुग्राम, हरियाणा—122002, इंडिया मे स्थित

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत सामान्य जनता को यह सचना दी जाती है कि कंपनी ने शकवार 27 सितम्बर, 2024 को आयोजित आसाधारण समान्य आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को 'हरियाणा राज्य' से 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' दिल्ली एवं हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कंपनी रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में अपना पंजीकत कार्यालय बदलने तथा कम्पनी के एसोसिएशन के संगम ज्ञापन को परिवर्तन की पुष्टि के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह इस नोटिस के प्रकाशन के दिगांक के चौदह दिनों के भीतर अपने विरोध का कारण और हित की प्रकृति जो शपथ-पत्र द्वारा सहयोगित हो तो वह निवेशक शिकायत फार्म भरे या रजिस्टर्ड डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2. विंग, द्वितीय तल. पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ कॉम्पलेक्स नई दिल्ली-110003 को साथ में एक प्रति याधिकाकर्ता कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय जो नीचे लिखे विवरणित पते पर भेजे। बीरकेनस्टॉक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

सीटी09-006 एण्ड सीटी09-007, 09वां पलोर, कॅपिटल टॉवर 1, सैक्टर-26, गुडगांव, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, इंडिया कुत्ते बीरकेनस्टॉक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड हरसाक्षर /

विनय बंसल पता : फ्लैट नं. 112, गुलमोहर अपार्टमेंट, रीक्टर-46, फरीदाबाद-121010, एचआर

केंद्रीय सरकार कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली

और हरियाणा के समक्ष सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा

13 के उप-धारा (3) और सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में रस्टी कंसल्टेंट्स एलएलपी जिसका पंजीकृत

कार्यालय आर-42, दूसरी मंजिल, ग्रेटर कैलाश-1, दक्षिण दिल्ली-110048 में है के मामले में, एतदद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि

अपनी पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी **क्षेत्र दिल्ली**" से "**हरियाणा**" राज्य में बदलने की अनुमित प्राप्त करने के लिए यह एलएलपी सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा के पास याचिका दायर करने का प्रस्ताव करता है। एलएलपी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित

परिवर्तन से यदि किसीभी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है, वह अपनी हित की प्रकृति और विरोध के आधार को बताते हुए एक हलफनामे द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा के पास इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर जमा कर सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या वितरित कर सकता है तथा उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता एलएलपी को उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जाएगी।

> रस्टी कंसल्टेंट्स एलएलपी की ओर से संजय रस्तोगी

(नामित भागीदार) पताः आर-42, दूसरी मंजिल, ग्रेटर कैलाश-1 दिनांकः 11.04.2025 दक्षिण दिल्ली-110048 स्थानः दिल्ली

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड संपर्क पताः ए-6, तीसरी मंजिल, सेक्टर 4, नोएडा - 201301. पंजीकृत कार्यालयः ०१, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057

फोन: 011 49267000, टोल फ्री नंबर: 1800 212 8800 HeroHousing र्डमेलः customer.care@herohfl.com वेबसाइटः www.herohousingfinance.com CIN: U65192DL2016PLC30148

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) (परिशिस्ट IV के अनुसार प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत) जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के

तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभित हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित ऋणधारकों को 60 दिनों की अवधि में अपनी बकाया राशि चुकाने हेतु मांग सूचना जारी किया था। ऋणधारक बकाया राशि का भुगतान करने में बिफल,रहे, अतः इस सूचना के माध्यम से एतद्वारा विशेष रूप से ऋणधारक एवं आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियम के विनयम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित संपत्ति का कब्जा

विशेष रूप से ऋणधारक एवं आम जनता को सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें और कोई भी लेन-देन बकाया राशि तथा नीचे वर्णित तिथि से ब्याज, दंड शुल्क, चार्जेज, लागत इत्यादि के लिये हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसंपत्ति को छराने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है ऋण खाता संख्या देनदार/कानूनी उत्तराधिकारी/ मांग सचना तिथि / मांग

	कानूनी प्रतिनिधि का नाम	सूचना के अनुसार राशि	(प्रताकात्मक / भौतिक)
HHFNOILAP230 00036291 और HHFNOI- HOU23000 034579	जािकर हुसैन, गुलिस्ता जािकर	16/01/2025, रुपये 13,50,986/- 16/01/2025 को देय	08.04.2025 (सांकेतिक)
	ग् <mark>चल संपत्तियों का विवरणः -</mark> फ्लैट नंब		
। एक बेडरूम, एक ड	।इंग कम डाइनिंग रूम, एक रसोई, एक	शोचालय/बाथरूम और बालकनी स	ो सामिल, कवर क्षेत्र ४५%

वर्ग फुट यानी 41.805 वर्ग मीटर जो प्लॉट नंबर 48, विक्रम एन्क्लेव, ग्राम पसोंडा, परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमां: पूर्व- प्लॉट नंबर 49, पश्चिम- प्लॉट नंबर 47, उत्तर- 40 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण- सर्विस लेन ताराख: - 12-04-2025. हस्ता∕− आधकृत आधकारा स्थानः - दिल्ली/एनसीआर हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

SIRCA PAINTS INDIA LIMITED Sircal. [Corporate Identity Number: L24219DL2006PLC145092] Registered & Corporate office: G-82, Kirti Nagar, Delhi-110015 Tel: +91-11-42083083; Website: www.sircapaints.com; Email: cs@sircapaints.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT (THROUGH REMOTE E-VOTING) votice is hereby given, pursuant to the provisions of Section 108 and Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act. 2013, as amended (the "Act"), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('the Rules'), Secretarial Standard-2 or

Seneral Meetings (the 'SS-2'), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'SEBI Listing Regulations') including any statutory modification(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (the 'MCA'), vide General Circular No. 09/2024 issued on 19th September 2024 read along with other connected circulars issued from time to time in this regard (the 'MCA Circulars'), Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD 2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI') the Company has on Friday, April 11, 2025, sent to the Members, who have registered their e-mail ID with Depository Participant(s) or with the Company, the Notice of Postal Ballot dated February 11, 2025 ogether with an Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Act, vide an e-mail through KFin echnologies Limited. Through the said Notice approval of Members of the Company is sought for: Appointment of Mr. Guido Scappini (DIN: 10920626) as a Non-Executive Non-Independent Director

The Board has appointed Mr. Pravesh Kumar (M/s. Pravesh Kumar & Associates, COP:20729) Practising Company Secretary, to act as the scrutinizer for conducting the Postal Ballot / e-voting The Company has engaged the services of KFin Technologies Limited ("KFin") to provide e-voting facility to its members. The Remote e-voting period shall commence on Saturday, April 12, 2025 (09:00

A.M. IST) and end on Sunday, May 11, 2025 (05:00 P.M. IST) (both days inclusive). In line with the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice has been sent to email addresses of those members whose names appeared in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as received from the depositories as on April 04, 2025 ("Cut - Of Date"). The voting rights shall be reckoned on the

not a member as on the Cut - Off Date should treat this notice for information purpose only Members should note that in terms of the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Afairs, no physical ballot form is being dispatched by the Company and the Members can cast their vote using remote e-voting facility only. The Members of the Company are also hereby informed and requested to notify that: a. The necessary instructions for Remote E-voting have been set out in the Notice dated February 11, 2025. Once vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change subsequently or cast the vote again.

paid-up value of the shares registered in the name of members as on the Cut - Off Date. A person who is

. A member who has not received Postal Ballot Notice on their registered email address along with relevant Explanatory Statement and e-voting instructions for remote e-voting may obtain the same by sending an email to our RTA i.e. KFin Technologies Limited at einward ris@kfintech.com or to the Company at cardisircapaints comi. A copy of the Postal Ballot Notice and the procedure for registration of email addresses of members are also available on the website of the Company at https://www.sircapaints.com/. The Postal Ballot Notice

along with Explanatory Statement is also available on websites of BSE Limited and National Stock Exchanges of India Limited ("Stock Exchanges" where the equity shares of the Company are listed). e. In case of any gueries/grievances, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Member https://evoting.kfintech.com/public/Faq.aspx.or.contact.Mr. Mohd Mohsinuddin, Senior Manager KFin Technologies Limited Email id-einward.ris@sdintech.com or call on 18003094001 (toll free). The result of the voting by Postal Ballot (through remote e-voting) shall be declared on or before Tuesday, May 13, 2025, the same will be communicated to the Stock Exchanges along with the

For Sirca Paints India Limited

Hira Kumar (Company Secretary)